TACENT PROJECTS LIMITED

(Formerly known as Rahul Merchandising Limited)

Regd. Office: H NO. 1/61-B Vishwas Nagar, Shahdara, East Delhi-110032 Email id: rahulmerchandising@gmail.com, Website: www.rahulmerchandising.in

CIN: L74899DL1993PLC052461, Ph: 7042309128

Date: 08.08.2025

To, The Head- Listing Compliance **BSE Limited** Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street Mumbai-400001

Scrip Code: 531887

Sub: <u>Intimation under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements)</u>
Regulations, 2015-Newspaper Publication

Dear Sir/Madam,

Pursuant to the Regulation 47 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, enclosed please find herewith copies of the Newspaper Advertisement of the Unaudited Standalone Financial Results of the company for the quarter ended 30 June, 2025 as was approved in the Board meeting held on Wednesday, 06th August, 2025 (commenced at 03:00 P.M. and concluded at 04:20 P.M), published in "Business Standard" (English) and in "Business Standard" (Hindi).

This is for your information and record.

For Tacent Projects Limited (Formerly Known as Rahul Merchandising Limited)

Priyanka Ram Company Secretary and Compliance Officer

Place: New Delhi

NIDO HOME FINANCE LIMITED

formerly known as Edelweiss Housing Finance Limited) Regd Office: Tower 3, Wing B, Kohinoor City Mall, Kohinoor City, Kirol Road, Kurla (W), Mumbai-4000 70.

E-AUCTION - STATUTORY 15 DAYS SALE NOTICE ____ f Security Interest Act. 2002 and The Secu Sale by E-Auction under the Securitisation nterest (Enforcement) Rules, 2002. Notice is hereby given to public in general and in particular to borrower and guarantor that below mentioned property will be sold on "AS IS

WHERE IS", AS IS WHAT IS "AND "WHATEVER THERE IS" for the recovery of amount as mentioned in appended table till the recovery of load dues. The said property is mortgaged to Nido Home Finance Limited (formerly known as Edelweiss Housing Finance Limited) for the loan availed. y Borrower(s), Co borrower(s) and Guarantor(s). The secured creditor is having physical possession of the below mentioned Secured Asset Name of Borrower(s)/Co Reserve Price and EMD Borrower(s)/ Guarantor(s) the Auction Rs.36,68,609.08/- (Thirty Six Lakh Sixty MOHD. SUAVALIN (Borrower) Rs. 46,74,093/- (Rupees Forty Six Lakhs (CO-BORROWERS) Eight Thousand Six Hundred and nine poir Sventy Four Thousand Ninety Three Only 11.am to 12 Noon zero eight only) as on 31.07.2025 + Earnest Money Deposit Rs.4,67,409.30/-(With 5 Minutes Mohd. Asif Further Interest thereon+ Legal Expenses FOR LAN NO. LDELLAP0000050374 Mohd.Kamil, Mohd.Sajid Four Hundred & Nine point three zero Only) Extensions)

Date & Time of the Inspection:- 18.08.2025 between 11.00 am to 3.00 pm DESCRIPTION OF THE SECURED ASSET:

Shop No.1, Ground Floor, without roof rights, B-5, Rana Pratap Bagh, Delhi-110007

Note:- 1) The auction sale will be conducted online through the website https://sarfaesi.auctiontiger.net and Only those bidders holding valid Email, ID PROOF & PHOTO PROOF, PAN CARD and have duly remitted payment of EMD through DEMAND DRAFT/ NEFT/RTGS shall be eligi ble to participate in this "online e-Auction".

2) The intending bidders have to submit their EMD by way of remittance by DEMAND DRAFT / RTGS/NEFT to:

eficiary Name: NIDO HOME FINANCE LIMITED, Bank: STATE BANK OF INDIA Account No. 65226845199 -, SARFAESI- Auction, NIDO HOME FINANCE LIMITED, IFSC code: SBIN0001593

3) Last date for submission of online application BID form along with EMD is 23-08-2025 4) For detailed terms and condition of the sale, please visit the website https://sarfaesi.auctiontiger.net or Please contact Mr. Maulik Shrima

Ph. +91- 6351896643/9173528727, Help Line e-mail ID: Support@auctiontiger.net.

Mobile No. 9004359835/ 9768746624 Date: 08.08.2025

Nido Home Finance Limited (Formerly known as Edelweiss Housing Finance Limited)

Physical Possession Date: - 19-03-2025

DCB Bank Limited.

(A-Set House, 7/56, D.B. Gupta Road, Karol Bagh, New Delhi - 110005) (Corporate & Registered Office: 6th Floor, Tower A, Peninsula Business Park, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai – 400013, Maharashtra)

DCB BANK

nido

E-AUCTION SALE NOTICE

[Under Rule 9(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002]

E-Auction sale notice for sale of immovable Assets under the securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement O Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rule, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the borrower(s), co-borrowers and the guarantors in particular, by the Authorized Officer, that the under mentioned property is mortgaged to DCB BANK LTD., The Authorized Officer of the Bank has taken the physical possession under the provision of Security ation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002. The property will be sold by tender cum public E-auction as mentioned below for recovery of under mentioned dues and further interest, charges and cost etc. as per th

The property will be sold "as is where is", "as is what is", "as is how is", " whatever there is" & on a "No Recourse" basis without any

Sr. No.	Name of Borrower and Guarantors	Details of Mortgage Property	1. Reserve Price / 2. Earnest Money Deposit (EMD) / 3. Bid Increase Amount	Date & Time of E-Auction	Type of Possession
1.	Vishal Vashisth & Meenu Vashisth	Residential Flat No309 on Third Floor in Rajawat Apartment, Built up on Khasra No 1060, 1017 & 1009 at Shri Ram Vihar Gummat, Hariparwat Ward, Agra Uttar Pradesh -282004, Area - 750 Sq Ft.	1.Rs.850000/- (Rupees Eight Lakh Fifty Thousand Only), 2.Rs.85000/- (Rupees Eighty Five Thousand Only), 3.Rs.25,000/- (Rupees Twenty Five Thousand Only)	29-08-2025 & 11:00 am - 12:00 pm	Physical
2.	1.SONU PANCHAL, 2.KANTA DEVI and 3.LAKHMI CHAND	HOUSE NO 452, OLD HAMIDA, NEAR GURUDAWARA VAKA RAKBHA MOJA MAMIDI, YAMUNA NAGAR, HARYANA- 135001	1.Rs.800000/- (Rupees Eight Lakh Only), 2.Rs.80000/- (Rupees Eighty Thousand Only), 3.Rs.25,000/- (Rupees Twenty Five Thousand Only)	29-08-2025 & 11:00 am - 12:00 pm	Physical
3.	NOORUZZAMA SIDDIQUI and GULNAZ SIDDIQI	HOUSESITUATED AT PART OF KHASRA NO. 417, 418, 421, 422, RAMGARH, PANJURPUR, PARGANA AND TEHSIL KOIL, DISTRICT ALIGARH, UTTAR PRADESH- 202001	1.Rs.1200000/- (Rupees Twelve Lakh Only), 2.Rs.120000/- (Rupees One Lakh Twenty Thousand Only), 3.Rs.25,000/- (Rupees Twenty Five Thousand Only)	29-08-2025 & 11:00 am - 12:00 pm	Physical
4.	Sanjeev Adlakha, Pan Polar Engineers Pvt Ltd (through Its Director Sanjeev Adlakha), Madhumita Adlakha And Pritam Lal Adlakha	U.G.S.R-1E (UGF), ANSAL PLAZA VAISHALI, GHAZIABAD, UTTAR PRADESH- 201010. (Nagar Nigam Dues of Rs. Approx. 1.50 Lakhs over the property and notice affixed on our mortgaged property)	1.Rs.220000/- (Rupees Twenty Two Lakh Only), 2.Rs.22000/- (Rupees Two Lakh Twenty Thousand Only), 3.Rs.25,000/- (Rupees Twenty Five Thousand Only)	29-08-2025 & 11:00 am - 12:00 pm	Physical
5.	Sanjeev Adlakha, Pan Polar Engineers Pvt Ltd (through Its Director Sanjeev Adlakha), Madhumita Adlakha And Pritam Lal Adlakha	U.G.S.R-1D (UGF), ANSAL PLAZA VAISHALI, GHAZIABAD, UTTAR PRADESH- 201010. (Nagar Nigam Dues of Rs. Approx. 1.50 Lakhs over the property and notice affixed on our mortgaged property)	1.Rs.220000/- (Rupees Twenty Two Lakh Only), 2.Rs.22000/- (Rupees Two Lakh Twenty Thousand Only), 3.Rs.25,000/- (Rupees Twenty Five Thousand Only)	29-08-2025 & 11:00 am - 12:00 pm	Physical
6.	MANVEER SINGH and SAVITA	House No. N-314, Second Floor Block – N, Sector – 23 Sanjay Nagar Ghazlabad, Uttar Pradesh -201002	1.Rs.90000/-(Rupees Nine Lakh Only), 2.Rs.9000/-(Rupees Ninety Thousand Only), 3.Rs.25,000/-(Rupees Twenty Five Thousand Only)	29-08-2025 & 11:00 am - 12:00 pm	Physical

nspection Date and Time:- of all properties from 28-07-2025 to 01-08-2025 Between 11:00AM to 04:00PM contact to Mr.Sumit Kumar Mo.- 7906633166, Mr.Nikuni Mathur – Mo. 9818979116 and Mr.Srajan Sharma – Mo. - 8395032800 between 11am to 6pm Date and time of submission of EMD on or before 28-08-2025 up-to SPm, with request letter of participation KYC, Pan Card , Proof of EMD at email id sumit.kumar16@dcbbank.com, srajan.sharma@dcbbank.com and nikunj.mathur@dcbbank.com

The intending purchasers/bidders are required to deposit EMD amount by way of Demand Draft ONLY favouring DCB Bank LTD TERMS AND CONDITIONS OF THE E-AUCTION

The properties are being sold on an "as is where is", "as is what is", "as is how is" & on a "No Recourse" basis without any kind of warranties 8

2) All Statutory Dues/Attendant Charges/ Other Dues including registration charges, stamp duty, taxes, etc. shall have to be borne by the purchaser and the Authorizes Officer or the bank shall not be responsible for any charges, lie in encumbrances or any other dues to the government or anyone else in respect of the e-auctioned property not known to the bank, the Bidder is advised to make their own independent enquiries regarding the encumbrances on the property including Statutory Liabilities, Arears of Property Tax, Electricity Dues etc

(Contact T.Jaya Prakash Reddy, Mob. No: 8142000064 : Back End Office : 8142000066/63/62, Office mail Id : info@bankauctions.in & Mail ld: prakash@Bankauctions.in at their web portal https://bankauctions.in/ on the dates as mentioned in the table above with Unlimited Extension of 5 Minutes. Bidders are advised to detailed terms and conditions of auction sale before submitting their bids refer to the link https://www.dcbbank.com/cms/showpage/page/customer-corner.

The interested bidders are required to register themselves with the portal and obtain login ID and Password well in advance, which mandatory for e-bidding, from auction service provider (4closure.com), Mob. No. 8142000064, Back End Office: 8142000066/63/62,

Prospective bidders may avail online training on e-auction from their registered mobile number only. Online E-auction participation is mandatory in the auction process by making application in prescribed format which is available along-with the

TOUCHWOOD ENTERTAINMENT LIMITED

Extract of Statement of Unaudited Consolidated & Standalone Financial Results for the Quarter Ended 30th June, 2025

30 June

2025

1,690.14

164.97

124.80

124.80

1,108.12

1.13

The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other

Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) and the

Regd Off : Sec-B, Pkt-1, Space No-301 & 302 LSC-7, Community Centre, Vasant Kunj Sector B New Delhi - 110070 CIN:L92199DL1997PLC088865

Quarter Ended

Consolidated

30 June

2024

386.27

36.69

36.69

25.31

25.31

1,108.12

0.23

Year Ended

2025

6.885.45

700.64

700.64

517.14

518.59

1.108.12

2.895.91

4.68

Date: 08.08.2025

Particulars

Net Profit before Tax (Before Exception Item)

and Other Comprehensive Income (after tax)

Reserves (Excluding Revaluation Reserve)

2 Previous periods figures have been regrouped/rearran

Equity Share Capital (Face Value of Rs. 10/- each)

Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/Loss

Net Profit before Tax (After Exception Item)

Net Profit after Tax (After Exception Item)

Total Income from Operation

Earning per Share

Basic

Diluted

Place : New Delhi Date : 07th August 2025

Place : Ghaziabad, Agra (U.P), Haryana and Delhi

Authorized Officer

30 June'

2025

1.690.14

169.81

169.81

129.64

129.64

1,108.12

(Amount in INR lakhs, except per equity share data

Standalone

2024

386.27

44.92

33.54

33.54

1,108.12

0.30

For and on Behalf of Board of Directo

Quarter Ended Year Ended

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India

BRANCH OFFICE: BAKKARWALA BRANCH, NEW DELHI **OSSESSION NOTICE** (For Immovable Property) [Under Rule 8(1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002]

Whereas the undersigned being the Authorized Officer of the Central Bank of India, Bakkarwala Branch, New Delhi under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002, and in exercise of powers conferred under Section 13(2) and 13(12) read with the Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002 issued a Demand Notice Dated 08/05/2025, calling upon the Borrower:- MRS. SEEMA W/O MR. DINESH KUMAR AND Co-Borrower MR. DINESH KUMAR S/o Sri Balwan Singh, to repay the amount mentioned in the notice being Rs.30,42,734.60 (Rupees Thirty Lakh Forty Two Thousand Seven Hundred Thirty Four and Paise Sixty Only) (which represents the principal plus interest due as on the 08/05/2025), plus interest and other charges from 08/05/2025 to till date within 60 days from the date of receipt of the said notice. The Borrower having failed to pay the entire dues of the bank, notice is hereby given to the borrower, the Guarantor and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said act, read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002 on this 05th Day of August 2025. The borrower(s) and the Guarantor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealing with the property will be subject to charge of Central Bank of India, Bakkarwala Branch, New Delhi for the amount of Rs.30,42,734.60 (Rupees Thirty Lakh Forty Two Thousand Seven Hundred Thirty Four and Paise Sixty Only) (which represents the principal plus interest due on the 08/05/2025), plus interest and other charges from 08.05.2025.

The borrower's attention is invited to provisions of sub section (8) of Section 13 of the SARFAESI Act, in respect of time available, to redeen the secured assets.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY:

(Detailed Description of the Secured Asset / Mortgaged Property) Owner and Mortgagor - Mrs. Seema W/o Mr. Dinesh Kumar. Description: Residential Flat, DDA Built LIG Flat Bearing No.41, on Ground Floor, Block - A 1, Pocket - 4, Sector-34, Rohini, New Delhi-110034.

ELECTRONICA FINANCE LIMITED

Audumbar, 101/1, Erandwane, Dr Ketkar Road, Pune 411004, Maharashtra, India

POSSESSION NOTICE [(Appendix IV) Rule 8(1)]

Whereas the Authorized officer of Electronica Finance Limited, a Non-Banking Financial Institution, under the provision of the Securitization and Reconstruction o

Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 Of 2002)

(hereinafter referred to as "SARFAESI Act. 2002") having its Registered Office at

Audumbar, Plot No 101/1, Dr. Ketkar Road, Opp. To Paraniape Builder Office.

Erandawane, Pune-411004 (hereinafter referred to as "EFL") and in exercise of the

powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest

(Enforcement) Rule, 2002 issued a Demand Notice dated 31-Jan-2025 and

published on 04-Feb-2025 upon you the undernamed-1. Lakhdatar Saree Emporium

. House No 1661, Sarai Pukhta, Palwal, Faridabad, Haryana 121102 Mob No:

8950363460. 2. Sneha Gupta, House No 1661, Ward No-27, Agerseen Vihar, Sarai

Pukhta, Faridabad, Palwal, Faridabad, Haryana 121102 Mob No:-7206875938,

3. Ravi Gupta. House No 1661. Ward No-27. Agerseen Vihar. Sarai Pukhta

Faridabad, Palwal, Faridabad, Haryana 121102 Mob No:-8950363460., 4. Meena

Gupta, House No 1661, Ward No-27, Agerseen Vihar, Sarai Pukhta, Faridabad,

Palwal, Faridabad, Haryana 121102 Mob No:-9034841184. 5. Manoj Gupta, House

No 1661, Ward No-27, Agerseen Vihar, Sarai Pukhta, Faridabad, Palwal, Faridabad,

This is to inform you that the Notice dated 31-Jan-2025 issued under Section 13(2) of

the Securitization & Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security

Interest Act, 2002 being served upon all above mentioned parties no. 1 to 5 on 06-02-

2025 there by calling upon you to repay the amount mentioned in the notice being Rs

36.01.028/- (Rupees Thirty-Six Lakhs One Thousand Twenty-Eight Only) along with

interest within 60 days from the date of receipt of the said notice vide Loan A/C

"The borrower/Guarantor having failed to repay the amount, notice is hereby given to

the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of

the property described herein below in exercise of powers conferred on him under

sub-section (4) of Section 13 of Act read with Rule 8 of the Security Interes

The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal

with the Asset mentioned in Schedule I and any dealings with the Asset described in

Schedule I Shall be subject to the charge of "EFL" for an amount of being

Rs. 36,01,028/- (Rupees Thirty-Six Lakhs One Thousand Twenty-Eight Only) and

The attention of the Borrower is invited to provisions of sub-section (8) of section 13

DESCRIPTION OF PROPERTY

All that piece and parcel of the Property Freehold Residential Property No.1661.

area measuring 110 sq, yards, situated at Waka Mauja Palwal (Saray Pukhta Ander Abadi / lal Dora, Tehsil & Dist. Palwal, haryana (hereinafter referred to as

the "Property in Question") Boundary of the aforesaid property: - Towards North-

38 ft. / House of Kali Charan Bansal, Towards South- 38 ft. House of Vijay Bansal,

Authorised Officer

APPLICAN^{*}

Electronica Finance Limited

PROCLAMATION REQUIRING

ATTENDENCE OF DEFENDANT ORDER-5, RULE-20 CPC-1908

IN THE COURT OF SHRI RAVINDRA

NATH DUBEY DISTRICT JUDGE COMMERCIAL COURT, NO. 1, JILA

PANCHAYAT BHAWAN KASNA GAUTAM

BUDH NAGAR U.P

OS NO-113/25

IN THE MATTER OF

Union Bank of India (E-Corporation Bank)

S.R. Plaza, Sector-16-A-2151, Vasundhar

VERSUS

M/S Shah Enterprises Prop. Mrs.Manu

Begum Shop No.G.F.24, Ground Floor, One

Mart Mall, Sector-6, Vasundhara

In the above noted application, you are

required to file reply/evidence in paper book

form in two sets along with documents &

affidavits (if any) personally or through your duly authorized agent or legal practioner in

the court after serving copy of the same on

the applicant or his counsel/dully authorized

agent after publication of the summons and

thereafter to appear before the court or 26/09/25 at 10.30 am falling which the

application shall be heard and decided in

Given under my hand and the seal of the

Commercial Court No.01

Kasna Gautam Budh Nagar

Ghaziabad:-201012

Ghaziabad, Uttar Pradesh

vour absence.

court this 04-08-2025

Harvana 121102. Mob No:-9034841184.

nterest other charges thereon.

Place: Palwal, Haryana

Date : 05/08/2025

2025

6,885,42

722.24

722.24

538.74

540.19

1.108.12

3.011.06

4.87

Maniit Sing

naging Director) DIN: 00996149

Number / Ref:- APPL00135880 (LOAN000005043451).

(Enforcement) Rules, 2002 on the 05th day of August 2025.

of the Act, in respect of time available, to redeem the secured asset.

Towards East-27 ft./Rasta.Agrasain Park, Towards West-27 ft./ Gali

DATE: 05/08/2025 PLACE: NEW DELHI

Central Bank of India

JBM AUTO LIMITED

Date: 06.08.2025

CIN: L74899HR1996PLC123264 Read. Office: Plot No. 133, Sector - 24 Faridabad - 121005 (Haryana)

E-mail: ibma.investor@ibmgroup.com Website: www.ibmgroup.com

SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGEMENT OF TRANSFER **REQUESTS OF PHYSICAL SHARES**

In accordance with SEBI circular no. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97

Shareholders are to note that this window is only for re-lodgement of transfer deeds which were lodged prior to the deadline of April 01, 2019 for transfer of physical shares, and rejected/returned/not attended due to deficiency in the documents, process/or otherwise.

Shareholders who wish to avail the opportunity are requested to contact our Registrar and Share Transfer Agent, MCS Share Transfer Agent Limited at 179-180. DSIDC Shed. 3rd Floor Okhla Industrial Area. Phase – 1. New Delhi – 110020 Email id: helpdeskreply@mcsregistrars.com

bma.investor@jbmgroup.com

Place: Gurugram

Date: August 07, 2025

T: +91 0129-4090200

JBM 🕯

dated July 02, 2025, shareholders of JBM Auto Limited are hereby informed that a special window has been opened for a period of six months from July 07, 2025 to January 06, 2026, to facilitate re-lodgement of transfer request of physical shares of the Company.

For further details, please write to the Company at the designated email id

For JBM Auto Limited

Sanieev Kumai Company Secretary 8 Compliance Officer M. No. A18087

TACENT PROJECTS LIMITED

(Formerly known as Rahul Merchandising Limited) Regd. Office: H NO. 1/61-B Vishwas Nagar, Shahdara, East Delhi-110032 Email id: rahulmerchandising@gmail.com, Website: www.rahulmerchandising.in CIN: L74899DL1993PLC052461, Ph: 7042309128

Extract of the Unaudited Standalone Financial Results for the Quarter Ended on 30 June, 2025 (Regulation 47(1) (b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015)

		Quarter Ended		
Particulars	30.06.2025	31.03.2025	30.06.2024	31.03.2025
	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)
Total income from operations	0.00	332.69	2.75	335.44
Other Income	0.00	0.00	0.00	0.00
Net Profit/(loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(1.46)	4.66	(1.37)	(3.70)
Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(1.46)	4.66	(1.37)	(3.70)
Net Profit/(loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(1.46)	4.66	(1.37)	(3.70)
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(1.46)	4.66	(1.37)	(3.70)
Equity Share Capital	351.23	351.23	351.23	351.23
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of previous year)				(376.75)
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) for continuing and discontinued operations)-				
1. Basic	(0.04)	0.13	(0.04)	(0.11)
2. Diluted	(0.04)	0.13	(0.04)	(0.11)

Notes:

The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Yearly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Reguirements) Regulations, 2015. The full forms of the Quarterly Financial Results is available on the website of the Stock Exchange www.bseindia.com and on th website of the Company at www.rahulmerchandising.in

> For Tacent Projects Limited (Formerly Known as Rahul Merchandising Limited

(Somali Trivedi) (Chairperson & Director

DIN: 10761851

(Rs. In lakhs except EPS)

PUBLIC NOTICE he General Public is Information that Mr. Ishai tanjan and Smt Shalini Ranjan S/o Gopal Ranjai the Owner of Flat No-501 5th floo Kanchanjunga tower Kaushambi Ghaziabad U.F 201010. And they have Lost Original Document: Related to Said Property Like as:- (1) The Original General Power of attorney on Dated 10/01/1997, (2) Original Allotment Letter On Dated 23/04/1990, (3) Possession Letter On Dated 03/07/1992. If anyone Found these Origional Documents and have any objection tegarding these Documents of the Property nform me one my given mob No. 9911004142

Yogesh Kumar (Advocate

PUBLIC NOTICE HEALTH carē **NSURANCE** Effective 31-10-2025

We will be closing our Vasant Vihar Delhi branch office situated at:

Care Health Insurance Ltd., Building No. 38, 2nd Floor, Community Centre, Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi - 110057

For any future correspondence with us, you may visit:

Care Health Insurance Ltd., S-13, Green Park Ext., Opp. Uphaar Cinema New Delhi - 110016

For any further details please contact: Sukhbir Singh

Contact No. +91 9311261008 Care Health Insurance Limited

Regd. Office: 5th Floor, 19 Chawla House, Nehru Place, New Delhi-110019 CIN - U66000DL2007PLC161503 Insurance is a subject matter of

(IRDAI Regd. No.148)

STATE BANK OF INDIA Home Loan Centre (15653) A-5, Pearls Best Heights -I Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi- 110034

Appendix-IV UNDER [RULE - 8(1)] POSSESSION NOTICE

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the State Bank of India, Home Loan Centre (15653), A-5, Pearls Heights-1, Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi-110034, under the securitization and reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act. 200 (54 of 2002) and in exercise of the powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a deman notice dated 29/04/2025 calling upon the Borrowers:- MRS. REENA LUKA W/O MR. SAURABH SHARMA, MR. SAURABH SHARMA S/O MR NARENDRA NATH SHARMA AND NARENDRA NATH SHARMA S/O MR CHAIT RAM SHARMA, all residents of Flat No. A-1203, OXY HOMEZ, Phase-Tower-A, New Dilshad Extension Loni Bhopura Road, Near Koyal Enclave Ghaziabad, Noida, Uttar Pradesh-201102, to repay the amount mentioned in the notice being Rs.38,08,180/- (Rupees Thirty Eight Lakh Eight Thousand One Hundred Eighty Only) as on 27/04/2025, with further interest, incidenta expenses, cost, charges etc. within 60 days from the date of receipt of the said notice. The Borrower, above said, having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrowers in particular and the Public in general that the

The Borrower above said in particular and the public in general is hereb cautioned not to deal with the property and any dealing with the property will be subject to the charge of State Bank of India, Home Loan Centre (15653), A-5 Pearls Heights-1, Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi-110034 for a amount of Rs.38,08,180/- (Rupees Thirty Eight Lakh Eight Thousand One Hundred Eighty Only) as on 27/04/2025, together with further interest thereon a the contractual rate of interest till the date of payment & expenses thereon The Borrower attention is invited to provisions of sub-section (8) of Section

undersigned has taken possession of the property described herein below in

exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Ac

read with Rule 8 of the said rules on this 06th of August 2025.

13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY Property owned by: Mrs. Reena Luka W/o Mr. Saurabh Sharma, Mr. Saurabl

Sharma S/o Mr. Narendra Nath Sharma and Mr. Narendra Nath Sharma S/o Mr. Chait Ram Sharma (Borrowers) (PROPERTY DESCRIPTION)

Flat No.A-1203, OXY HOMEZ, Phase-I, Tower-A, New Dilshad Extn.

Loni, Bhopura Road, Near Koyal Enclave, Ghaziabad. Noida Uttar Pradesh-201102. Date: 06.08.2025

Place: DELHI

Authorised Officer, State Bank of India


In fast or fragile markets,

Decode market moves with sharp, fast, expert analysis every day with Stocks in the News

To book your copy, SMS reachbs to 57575 or email order@bsmail.in

in Business Standard.

insight brings perspective.



Business Standard Insight Out

टैसेंट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (पूर्व में राहुल मर्चेंडाइजिंग लिमिटेड के नाम से ज्ञात) रजि. कार्यालयः मकान नं. 1/61-बी विश्वास नगर, शाहदरा, पूर्वी दिल्ली-110032 ईमेल आईडीः rahulmerchandising@gmail.com, वेबसाइट: www.rahulmerchandising.in सीआईएनः L74899DL1993PLC052461, फोन: 7042309128

30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित एकल वित्तीय परिणामों का सारांश (सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 का विनियम 47(1)(बी))

	(इपाएस का छाड़कर रुपय लाख म्				
		तिमाही समाप्ति			
विवरण	30.06.2025	31.03.2025	30.06.2024	31.03.2025	
1774-1	(अलेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	
परिचालन से कुल आय	0.00	332.69	2.75	335.44	
अन्य आय	0.00	0.00	0.00	0.00	
अवधि हेतु शुद्ध लाम/(हानि) (कर पूर्व, आपवादिक और/या असाधारण मदे)	(1.46)	4.66	(1.37)	(3.70)	
कर पूर्व अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (आपवादिक और/या असाधारण मद पश्चात्)	(1.46)	4.66	(1.37)	(3.70)	
कर पश्चात् अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (आपवादिक और/या असाधारण मद पश्चात्)	(1.46)	4.66	(1.37)	(3.70)	
अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु लाभ/(हानि) (कर पश्चात्) और अन्य कुल व्यापक आय (कर पश्चात्) शामिल]	(1.46)	4.66	(1.37)	(3.70)	
इक्विटी शेयर पूंजी	351.23	351.23	351.23	351.23	
पिछले वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन पत्र में दर्शाए अनुसार आरक्षित निधियाँ (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि को छोड़कर)				(376.75)	
प्रति शेयर आय (10 रुपये प्रति शेयर) (निरंतर और बंद परिचालनों हेतु)					
1. मूलभूत	(0.04)	0.13	(0.04)	(0.11)	
2. तरलीकृत	(0.04)	0.13	(0.04)	(0.11)	

उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में दाखिव तिमाही ⁄वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारंश है। तिमाही वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com और कंपनी की वेबसाइट www.rahulmerchandising.in पर उपलब्ध है।

> कते टैसेंट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (पूर्व में राहुल मर्चेंडाइजिंग लिमिटेड के नाम से ज्ञात) (सोमाली त्रिवेदी (अध्यक्ष एवं निदेशक डीनः 10761851

∞ef∥ इलेक्ट्रॉनिका फाइनेंस लिमिटेड औदुंबर, प्लॉट नं.101/1, एरंडवाने, डॉ. केतकर रोड, पुणे 411004, महाराष्ट्र, भारत

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने इलेक्ट्रॉनिका फाइनेंस लिमिटेड, एक अ–बैंकिंग वित्तीय प्रतिष्ठा जिसका **पंजीकृत कार्यालय औदुंबर, प्लॉट सं. 101/1, डॉ. केतकर रोड, परांजपे बिल्ड**र कार्यालय के सम्मुख, इरेंडवाने, पूर्ण-411004 (यहाँ इसमें इसके उपरांत "ईएफएल" के रूप र संदर्भित), के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) (यहाँ इसमें इसके उपरांत ''सरफेसी अधिनियम 2002'' के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, एक माँग सूचना दिनांक 31—जनवरी—2025 को एक डिमांड नोटिस जारी किया गया और एम्पोरियम मकान नं. 1661, सराय पुख्ता, पलवल, फरीदाबाद, हरियाणा 121102 मोबाइल नंबर— 8950363460. **2. स्नेहा गुप्ता,** मकान नं. 1661, वार्ड नंबर—27, अग्रसेन विहार, सराय पुख्ता, फरीदाबाद, पलवल, फरीदाबाद, हरियाणा 121102 मोबाइल नंबर—7206875938, **3. रवि गुप्ता,** मकान नं. 1661, वार्ड नंबर—27, अग्रसेन विहार, सराय पुख्ता, फरीदाबाद, पलवल, फरीदाबाद, हरियाणा 121102 मोबाइल नंबर—8950363460., **4. मीना गुप्ता,** मकान नंबर 1661 वार्ड नं. २७, अग्रसेन विहार, सराय पुख्ता, फरीदाबाद, पलवल, फरीदाबाद, हरियाणा 121102 मोबाइल नं.—9034841184. **5. मनोज गुप्ता,** मकान नं. 1661, वार्ड नंबर—27, अग्रसेन विहार सराय पुख्ता, फरीदाबाद, पलवल, फरीदाबाद, हरियाणा 121102, मोबाइल नं. 9034841184 आपको सूचित किया जाता है कि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथ प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत जारी दिनांक 31 जनवरी 2025 का नोटिस उपरोक्त सभी पक्ष सं. 1 से 5 को 06.02.2025 को भेज दिया है, जिसमें आपको नोटिस में उल्लिखित राशि रु. 36,01,028/— (रु. छत्तीस लाख एक हजार अड्डाईस मात्र] ब्याज सहित उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर ऋण खाता संख्या / संदर्भ APPL00135880 (LOAN000005043451) के माध्यम से प्रतिभुगतान करने को कहा गया था। ऋणकर्ता / गारंटर उक्त निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके है अतएव एतद्वारा ऋणकर्ता और जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहाँ इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के

प्रयोगांतर्गत दिनांक **05 अगस्त 2025** को अधिग्रहण कर लिया है। विशेष रूप से ऋणकर्ता और आम जनता को इसके द्वारा अनुसूची-। में उल्लिखित परिसंपित के साथ लेन–देन न करने की चेतावनी दी जाती है और अनुसूची–। में वर्णित परिसंपत्ति के साथ कोई भी लेन–देन ''ईएफएल'' के प्रभार वास्ते राशि **रु. 36,01,028/– (रु. छत्तीस लाख एक हजार अड्डाईस मात्र)** और उस पर ब्याज, अन्य प्रभार के अधीन होगा।

ऋणकर्ता का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्ति के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

<u>सम्पत्ति का विवरण</u> सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि फ्रीहोल्ड आवासीय संपत्ति सं. 1661 क्षेत्रफल 110 वर्ग गज जोकि वाका मौजा पलवल (सराय पुख्ता अंदर आबादी / लाल डोरा, तहसील एवं जिला पलवल, हरियाणा (इसके बाद "प्रश्नाधीन संपत्ति" कहा जाएगा) उपरोक्त संपत्ति की सीमाएं... उत्तर... 38 फीट / काली चरण बंसल का मकान, दक्षिण—38 फीट / विजय बंसल का मकान, पूर्व— 27 फीट / रास्ता अग्रसैन पार्क, पश्चिम— 27 फीट / गली

दिनांक: 05.08.2025

DCB BANK

प्राधिकृत अधिकारी इलेक्ट्रॉनिका फाइनेंस लिमिटेड

PUBLIC NOTICE I G Prakash residing at # 1951/2 N.S. Road, Fast Cross, Shiyarampet, Mysore-570001 Trakashi, Isabiling at # 1931/2, N.S. nodu, East Cross, Sinvalampet, Mysole-970001, Karnataka, state that, I have lost my original Share Certificates bearing Folio No.ESC0325183 and the details are as follows: Certificate No No.of Shares Distinctive Nu From 38941303 38941352 969678 969679 38941353 38941402 38941403 38941452 969680 59371513 59371522 1177342 10 Company name: Escorts Kubota Limited, stands in the name of K.G.Prakash, which is my previous name on date 01.01.2025 at near my above said house. It is requested the general public that, if it is traced, kindly restore the same to me to the above address MALLIKARJUNA SWAMY, Advocate and Notary Date: 06-08-2025 No. 54, Opp. Lansdowne Building, Near City Bus Stand, Mysuru-570001.

TOUCHWOOD ENTERTAINMENT LIMITED

Regd Off : Sec-B, Pkt-1, Space No-301 & 302 LSC-7, Community Centre, Vasant Kunj Sector B New Delhi - 110070 CIN:L92199DL1997PLC088865

Extract of Statement of Unaudited Consolidated & Standalone Financial Results for the Quarter Ended 30th June. 2025 (Amount in INR lakhs, except per equity share data

S.	Particulars		Consolidated			Standalone		
No.	Particulars	Quarter Ended		Year Ended	Quarter Ended		Year Ended	
		30 June' 2025	30 June' 2024	30 June' 2025	30 June' 2025	30 June' 2024	31 March' 2025	
1	Total Income from Operation	1,690.14	386.27	6,885.45	1,690.14	386.27	6,885.42	
2	Net Profit before Tax (Before Exception Item)	164.97	36.69	700.64	169.81	44.92	722.24	
3	Net Profit before Tax (After Exception Item)	164.97	36.69	700.64	169.81	44.92	722.24	
4	Net Profit after Tax (After Exception Item)	124.80	25.31	517.14	129.64	33.54	538.74	
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/Loss	124.80	25.31	518.59	129.64	33.54	540.19	
	and Other Comprehensive Income (after tax)							
6	Equity Share Capital (Face Value of Rs. 10/- each)	1,108.12	1,108.12	1,108.12	1,108.12	1,108.12	1,108.12	
7	Reserves (Excluding Revaluation Reserve)			2,895.91			3,011.06	
8	Earning per Share							
	Basic	1.13	0.23	4.68	1.17	0.30	4.87	
<u> </u>	Diluted	1.13	0.23	4.68	1.17	0.30	4.87	

The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) and the listed entity, (www.touchwood.in),



For and on Behalf of Board of Director **Touchwood Entertainment Limite**

Manjit Singh (Managing Director DIN: 00996149

डीसीबी बैंक लिमिटेड

दिनांकः **06.08.202**5

ए—सेट हाऊस, 7 / 56, डी.बी. गुप्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्ली—110005 (कार्पोरेट एवं पंजीकृत कार्यालयः 6वाँ तल, टॉवर ए, पेनिनसुला बिज़नेस पार्क, सेनापति बापत मार्ग, लोअर परेल, मुंबई—400013, महाराष्ट्र)

ई-नीलामी बिक्री नोटिस

[प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9(1) के तहत]

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु ई—नीलामी बिक्री नोटिस

एतददारा पाधिकत अधिकारी दारा सर्व साधारण और विशेष रूप से कर्जदार(ओ) सह-कर्जदारों(ओ) और जमानतियों को सचित किया जाता है कि अधोल्लिखित संपत्ति डीसीबी बँक लि. को बंधक है। बँक के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आरितयों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत भौतिक कब्जा ले लिया हैं। संपत्ति अधोल्लिखित देयों और आगे की ब्याज, प्रभारों एवं लागत आदि की वसूली के लिए नीचे तालिका में दिए विवरण अनुसार निविदा सह सार्वजनिक ई-नीलामी द्वारा बिक्री की जायेगी:-

संपत्ति **"जो है जहाँ है", "जहाँ है जैसी है", "जो भी है"** और **"कोई वापसी नहीं"** शर्त पर बिना किसी वारंटी और क्षतिपूर्ति के बिक्री की जायेंगी

क्र. सं.	कर्जदार और जमानती के नाम	बंधक संपत्ति का विवरण	 आरक्षित मूल्य / 2. धरोहर राशि जमा (ईएमडी)/ 3. बोली वृद्धि राशि 	ई—नीलामी की तिथि व समय	कब्जे का प्रकार
1.	गौरव जिंदल, अंगूरी जिंदल और संजीव जिंदल	संपत्ति अर्थात आवासीय मकान क्षेत्रफल 70 वर्ग गज अर्थात 58.52 वर्ग मीटर जिसका खसरा नं. 526, रिथत मोहल्ला नंद नांगरी, गाँव सीकरे खुर्द परगना जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद, आगे इसे उक्त संपत्ति कहा गया है। पूर्व: शुमाष त्याकी का मकान/ पश्चिम: पणू का प्लॉट, उत्तर: सुरेश का मकान / दक्षिण: 12 फुट बौड़ा रास्ता।	(रुपये इक्कीस लाख तेरह हजार मात्र), 2. रु. 211300 /— (रुपये दो लाख ग्यारह हजार तीन सौ मात्र),	12.09.2025 और पूर्वा. 11:00 — अप. 12:00	भौतिक
2.	श्री मुनव्वर मुनव्वर उर्फ श्री मुनव्वर खान (पुत्र श्री शराफत) और श्रीमती अस्मा खान (पत्नी श्रीमान) मुनव्वर खान)	एक मकान माप 77 वर्ग गज = 64.38 वर्ग मीटर, खेत खसरा संख्या 276/3 और नए खेत खसरा संख्या 831 का हिस्सा, मौजा मंजूरगढ़ी, परगना और तहसील कोल, जिला अलीगढ़ के समस्त भाग व खंड। सीमाएँ निम्नवत् हैं:— पूर्व: माप 15 फुट जावेद के प्लॉट के बाद, पश्चिम: माप 15 फुट 14.5 फुट चौड़ी सड़क के बाद, उत्तर: माप 46 फुट मुनव्तर खान के प्लॉट के बाद, दक्षिण: माप 47 फुट बिस्मल्लाह के प्लॉट के बाद	1. रू. 245000/— (रुपये चौबीस लाख पचास हजार मात्र), 2. रू. 245000/— (रुपये दो लाख पैंतालीस हजार मात्र), 3. रू. 25,000/— (रुपये पच्चीस हजार मात्र)	12.09.2025 और ਧੂਗੀ. 11:00 — अप. 12:00	भौतिक

संपत्ति निरीक्षण की तिथि और समयः– सभी संपत्तियों के लिए 01.09.2025 से 05.09.2025 तक पूर्वा. 11:00 से अप. 04:00 के बीच। संपर्क श्री सुमित कुमार, मो.—7906633166 श्री निकुंज माधुर, मो.—9818979116 और श्री स्जन शर्मा, मो.— 8395032800 को पूर्वा. 11:00 से अप. 06:00 तक। **ईएमडी जमा करने की तिथि और समयः 11.09.2025 समय अप. 6 तक,** भागीदारी के लिए अनुरोध पत्र, केवाईसी, पैन कार्ड, ईएमडी के साक्ष्य सहित

रिकेल आईडी sumit kumar16@dchhank.com srajan sharma@dchhank.com और nikuni mathur@dchhank.d

इच्छुक खरीदारों / निविदाकारों को ईएमडी राशि डीसीबी बैंक लि. के नाम में केवल डिमांड ड्रॉफ्ट के माध्यम से जमा करनी होगी।

ई—नीलामी के निबंधन व शर्ते निम्नवत् हैं:

. (1) संपत्ति ''जो है जहाँ है''. ''जहाँ है जैसी है''. ''जो भी है'' और ''कोई वापसी नहीं'' शर्त पर बिना किसी वारंटी और क्षतिपूर्ति के बिक्री की जायेंगी (a) प्रभित्त जो व अहा है , जहां है जिस है , जा ना है जा किया प्रभाव किया है । जहां किया निर्मा किया है जिस के जिपना। (a) सभी वैद्यानिक बकाया/सहदत्ती शुक्क/पंजीकरण शुक्क, स्टाम्प शुक्क, कर आदि सहित अन्य बकाया केता द्वारा वहन किए जाने होंगे। प्राधिकृत अधिकारी या बैंक ई—नीलामी वाली संपत्ति के संबंध में सरकार या किसी अन्य को किसी भी शुक्क, भार में ग्रहणाधिकार या किसी अन्य बकाया जो बैंक को ज्ञात नहीं है, के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वे वैधानिक देनदारियों, संपत्ति कर के बकाया, बिजली बकाया आदि सहित संपत्ति पर भार के बारे में अपनी स्वतंत्र जांच करें।

(3) संपर्कः टी. जया प्रकाश रेड्डी, मोब: 8142000064, बैक एंड ऑफिस: 8142000066/63/62, कार्यालय ईमेल: info@bankauctions.in और prakash@Bankauctions.in को उनके वेब पोर्टल https://bankauctions.in/ पर उपर्यक्त तालिका में यथाउल्लिखित तिथियों को . 5 मिनट अवधि के असीमित विस्तारों के साथ। निविदाकारों से अपनी निविदा जमा करने से पूर्व नीलामी बिक्री के विस्तृत निबंधन व शर्तों को देखने की सलाह दी जाती है और कृपया लिंक https://www.dcbbank.com/cms/showpage/page/customer-corner का संदर्भ लें। (4) इच्छुक निविदाकारों को पोर्टल पर स्वयं का पंजीकरण और नीलामी सेवा प्रदाता (4closure.com), मोब.: 8142000064,

8142000066 / 63 / 62, से समय रहते लॉगिन आईडी व पासवर्ड प्राप्त करना होगा जो ई—निविदाकरण के लिए अनिवार्य है। संभावी निविदाकार केवल अपने पंजीकृत मोबाइल नं. से ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।

(5) निर्धारित प्रारूप में आवेदन जो ऑफर/निविदा दस्तावेज के साथ वेबसाइट पर उपलब्ध है में, करके नीलामी प्रक्रिया में ऑनलाइन ई—नीलामी भागीदारी

दिनांक: ०८ ०८ २०२५ स्थानः गाजियाबाद और अलीगढ प्राधिकृत अधिकारी डीसीबी बैंक लिमिटेड

ल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India

शाखा कार्यालयः बक्करवाला शाखा, नई दिल्ली

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के तहत

जबकि, **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बक्करवाला शाखा, नई दिल्ली** के अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) और 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर मांग सूचना दिनांकित 08.05.2025 जारी की जिसमें कर्जदार:- श्रीमती सीमा पत्नी श्री दिनेश कुमार और **सह—कर्जदारः— श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री बलवान सिंह** से सूचना में उल्लिखित राशि रु. 30,42,734.60/- (रुपये तीस लाख बयालीस हजार सात सौ चौंतीस और साठ पैसा मात्र) (जिसमें दिनांक 08.05.2025 तक मूलधन और ब्याज शामिल है), प्लस दिनांक 08.05.2025 से भुगतान की तारीख तक ब्याज और अन्य प्रभार को उक्त सूचना प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अंदर चुकता करने के लिए कहा। कर्जदार द्वारा राशि चुकता करने में असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार, जमानती और सर्व सामान्य को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नीचे उल्लिखित

विशेष रूप से कर्जदार(ओं) एवं जमानती और सामान्य रूप में सर्व जन को संपत्ति से कोई लेन-देन न करने के लिए आगाह किया जाता है और संपत्ति का कोई भी लेन-देन राशि रु. 30,42,734.60/- (रुपये तीस लाख बयालीस हजार सात सौ चौंतीस और साठ पैसा मात्र) (जिसमें दिनांक 08.05.2025 तक मूलधन और ब्याज शामिल है), प्लस दिनांक 08.05.2025 से भुगतान की तारीख तक ब्याज और अन्य प्रभार के लिए **सेन्ट्रल बैंक ऑफ** इंडिया, बक्करवाला शाखा, नई दिल्ली के प्रभार के अधीन होगा।

प्रत्याभूत परिसंपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों में कर्जदार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरणः

(प्रत्याभूत परिसंपत्ति / बंधक संपत्ति का विस्तृत विवरण) मालिक और बंधककर्ता— श्रीमती सीमा पत्नी श्री दिनेश कुमार विवरणः आवासीय फ्लैट, डीडीए निर्मित एलआईजी फ्लैट, नंबर 41, भूतल पर, ब्लॉक — ए 1, पॉकेट — 4, सेक्टर—34, रोहिणी, नई दिल्ली—110034

स्थानः नई विल्ली

हस्ता/- (प्राधिकृत अधिकारी), सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

सिक्योरिटाईजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 (अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना गिरवी संपत्ति(यों) बकाया राशि कर्जदाता (ओं) का नाम एन.पी.ए की का विवरण (रू.) (डी) (y) (बी) कर्ज खाता क्र. HHLNOD00422587 फ्लैट नंबर एसएफ-02, दसरी मंजिल, 09.07.2025 रु. 21.29.222.91/- (रुपए डक्कीर छत के अधिकारों के साथ, सामने दाईं लाख उनतीस हजार दो सौ बाईस 1. हर्ष कुमार तरफ, प्लॉट नंबर एमएम 16, डीएलएफ 2. चेतना और इक्यानवे पैसे मात्र) अंकुर विहार, लोनी, गाज़ियाबाद– 15.07.2025 के अनुसार 201010, उत्तर प्रदेश। 2. कर्ज खाता क्र. HHLNOD00525360 फ्लैट नंबर एफएफ2, एमआईजी पहली रु. 20,09,834.74/- (रुपए बीस 1. दलीप कुमार मंडल मंजिल, सामने दाईं तरफ, छत के लाख नौ हजार आठ सौ चौंतीस अधिकारों के बिना, प्लॉट नंबर एमएम 2. प्रदीप कुमार और चौहत्तर पैसे मात्र) 81, डीएलएफ अंकुर विहार, 23.07.2025 के अनुसार सादलाबाद, गाजियाबाद-201010. उत्तर प्रदेश। 3. कर्ज खाता क्र. HHLMAT00449453 प्लॉट नंबर ए-30, खसरा नंबर 427, रु. 26,44,867.48/- (रुपए 1. रविन्द्र पाल सिंह प्रगति कुंज, फेज 1, मौजा अडूकी, छब्बीस लाख चौवालीस हजार तहसील और जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश 2. जमुना देवी आठ सौ सडसठ और अडतालीस 2810011 3. देवेंद्र सिंह पैसे मात्र) 03.07.2025 के 4. अर्जुन सिंह (गारंटर)

कि ऊपर लिखे नाम वाला उधार लेने वाला(ले) ने ऋण खाते के वित्तीय अनुशासन को बनाए रख पाने में असफल रहे हैं तथा कंपनी द्वारा अपनी आम बिजनेस चर्या में रखे जाने वाले खातों के अनुसार प्रत्येक उधार पाने वाले (लों) के नाम के आगे स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट धनराशि बकाया बनी हुई है। उधार लेने वाले(लों) की ओर से ऋण धनराशि का पुनर्भुगतान में लगातार चूक होने के कारण उधार लेने वाले(लों) के ऋण खाते को कंपनी द्वारा सीमांकित मापदंडो के भीतर निष्पादनेतर परिसंपत्तियों (स्तंभ सी में तारीख के अनुसार) के रूप में वगीकृत किया गया है। परिणामस्वरूप प्रत्येक उधार लेने वाले को अधिनियमन की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचनाएं भी जारी की गई है ।

उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए कंपनी एतद्भ्वारा ऊपर लिखे नाम वाले उधार लेने वाले(लों) का आहवान करती है कि, वे इस सूचना के प्रकाशित होने के दिन से 60 दिन के भीतर अद्यतन ब्याज, लागतें, तथा शुल्कों सहित ऊपर स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट संपूर्ण बकाया देयताओं का भुगतान करके कंपनी के प्रति बनने वाले अपने / उनके पूर्ण दायित्वों का निर्वहन करें, ऐसा न करने पर कंपनी ऊपर के स्तंभ बी में उल्लिखित बंधक रखी गई संपत्ति को अधिग्रहीत करने के लिए कंपनी पात्र होगी ।

कृपया ध्यान दें कि सरफेसी कानून की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के अनुसार, ''कर्जदार सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोटेशन आमंत्रित करते हुए, सार्वजनिक निविदा या निजी समझौते द्वारा सुरक्षित आस्तियों की बिक्री के लिए सूचना के प्रकाशन के दिनांक तक केवल सिक्योर्ड क्रेडिटर द्वारा किए गए सभी खर्चों, लागतों और प्रभारों के साथ संपूर्ण बकाया देय राशि अदा कर सकता है, इसके अलावा यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त विधिक रूप से निर्धारित समयावधि के अंदर सुरक्षित आस्ति का मोचन करने में कर्जदार विफल रहने पर कर्जदार संपत्ति का मोचन करने के लिए पात्र नहीं हो सकता'' सरफेसी अधिनियमन की धारा 13 की उप–धारा (13) के प्रावधान के संदर्भ में, आप इस प्रकार बिक्री, पट्टे के माध्यम से अन्यथा नोटिस में उल्लिखित अपनी सुरक्षित संपत्तियों में से कोई भी (अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) सुरक्षित लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित हैं। कृते सम्मान कैपिटल लिमिटेड

(पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था

प्राधिकत अधिकार्र

When industry giants speak. evervone listens.

In-depth Q&As with market mavens every Monday in Business Standard.

To book your copy, SMS reachbs to 57575 or email order@bsmail.in



Business Standard Insight Out

अपोलो पाइप्स लिभिटेड सीआईएन : L65999DL1985PLC022723

पंजीकत कार्यालय : 37, हरगोबिंद एन्क्लेव, विकास मार्ग, दिल्ली - 110092 निगमित कार्यालय : भखण्ड सं. ए-140, सेक्टर-136, नोएडा, उत्तर प्रदेश- 201301 ईमेल : compliance@apollopipes.com, वेबसाइट : www.apollopipes.com

			(आँकड़े रु. ला	ख में, ईपीएस छो	
豖.		समाप्त	समाप्त तिमाही		
त्र. सं.	विवरण	30.06.2025 (अलेखापरीक्षित)	30.06.2024 (अलेखापरीक्षित)	31.03.2025 (लेखापरीक्षित)	
1	कुल आय	22278.67	24104.86	93047.9	
2	ईबीआईडीटीए	2145.45	2515.39	8994.7	
3	अवधि हेतु निवल लाभ / (हानि) (कर, आपवादिक एवं / अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	907.87	1479.67	4215.9	
4	कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाभ / (हानि) (आपवादिक एवं / अथवा असाधारण मदों के उपरांत#)	907.87	1479.67	4215.9	
5	कर उपरांत अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (आपवादिक एवं / अथवा असाधारण मदों के उपरांत)	811.29	1088.15	3081.9	
6	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु लाम / (हानि) (कर उपरांत) तथा अन्य व्यापक आय (कर उपरांत) से समाविष्ट]	983.07	1087.83	3982.9	
7	समता अंश पूंजी	4404.82	4135.32	4404.8	
8	अन्य समतायें (आरक्षितियाँ)			76096.6	
9	आय प्रति अंश (रु. 10/— प्रत्येक का अंकित मूल्य, त्रैमासिक आँकडों के लिए अवार्षिकीकृत)				
	मूलभूत :	1.84	2.63	7.0	
	तरलीकृत :	1.84	2.60	7.0	

दिनाँक 30 जून 2025 को समाप्त तिमाही के अलेखापरीक्षित एकीकृत वित्तीय परिणामों का संक्षिप्त विवरण

	समाप्त 1	समाप्त तिमाही			
विवरण	30.06.2025 (अलेखापरीक्षित)	30.06.2024 (अलेखापरीक्षित)	31.03.2025 (लेखापरीक्षित)		
कुल आय	27,800.42	30,948.13	118690.06		
कर पूर्व लाभ	912.70	1,779.55	4542.65		
कर गण्यात जाभ	816.12	1 388 04	3408 66		

उपरोक्त साराँश, सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों के पास फाइलबद्ध अलेखापरीक्षित पृथक तथा एकीकृत वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक साराँश है। त्रैमासिक वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप, स्टॉक एक्सचेंज(जों) की वेबसाइटों (www.bseindia.com तथा www.nseindia.com) पर तथा कंपनी की वेबसाइट अर्थात् (www.apollopipes.com) पर उपलब्ध है। परिणामों को नीचे उपलब्ध कराये गये क्यूआर कोड को स्कैन करके भी देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है :

स्थान : नोएडा दिनाँक: 7 अगस्त, 2025

कृते अपोलो पाइप्स लिमिटेड अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक

समीर गुप्ता

Exceeding Expectations...Always

PEARL GLOBAL INDUSTRIES LIMITED

PEARL GLOBAL CIN: L74899DL1989PLC036849

स्थान : गाज़ियाबाद/मथुरा

Registered Office.: C-17/1, Paschimi Marg, Vasant Vihar, New Delhi-110057 Corp. Off.: Pearl Tower Plot No. 51, Sector-32, Institutional Area, Gurugram-122001, Haryana Tel: 0124-4651000; E-mail: investor.pgil@pearlglobal.com; Website: www.pearlglobal.com

EXTRACT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS

FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2025

(Rs. in Lakins except earning p					g per snare data
S. No.	Particulars	Quarter Ended 30.06.2025 (Unaudited)	Quarter Ended 31.03.2025 (Audited)	Quarter Ended 30.06.2024 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2025 (Audited)
1.	Total income from operations	1,23,921.91	1,23,435.89	1,06,238.26	4,53,984.19
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax,Exceptional and/or Extraordinary items*)	7,664.83	7,462.70	6,765.75	26,276.97
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items*)	7,632.87	7,778.94	7,322.91	26,733.29
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items*)	6,555.94	6,497.34	6,192.90	23,077.07
5.	Total Comprehensive Income for the period(Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	5,566.04	5,721.67	4,381.64	21,105.88
6.	Equity Share Capital	2,297.81	2,296.76	2,179.86	2,296.76
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year.	-	-	-	1,13,273.19
8.	Earning Per Share (of Rs.5/- each)				
	Basic:	14.76	15.10	14.99	54.96
	Diluted :	14.62	14.96	14.84	52.87

(*) Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit & Loss in accordance with Ind AS Rules.

Notes:

Place : Chennai

Dated: August 07, 2025

Requirements) Regulations, 2015:

- (1) The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly /Annual Finacial Results (both Consolidated & Standalone) are available on the Company's website at www.pearlglobal.com, besides the websites of BSE Ltd. and National Stock Exchange of India Ltd.
- (2) The above financial results were reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of the Directors of company at their meetings held on August 07, 2025. The financial results for the quarter ended June 30, 2025 have been reviewed
- by the Statutory Auditors of the Company. (3) Additional information on standalone financial results pursant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure

(Rs. in Lakhs) Year Ended 31.03.2025 **Particulars** Quarter Ended 30.06.2024 30.06.2025 31.03.2025 (Audited) 26,665.74 1,19,616.36 39,748.88 27,615.76 (a) Turnover (b) Net Profit / (Loss) for the period before tax (after





(Pallab Banerjee) Managing Director DIN 07193749